

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
(डॉ० भंवर लाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 19/2019

दायर दिनांक : 03.06.2019

आदेश दिनांक : 07.03.2024

:: अनवान ::

देवी लाल जाट पुत्र स्व. श्री भूरा जी जाति जाट उम्र 58 वर्ष निवासी गांव खण्डेल,  
ग्राम पंचायत लापस्या, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

— प्रार्थी

:: बनाम ::

1. भारत संघ जरिए, सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. प्राधिकृत अधिकारी (भू-अवाप्ति) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द (राज.)
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन  
इकाई भीलवाड़ा, 6-ए-1, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा-(राज.)

— विपक्षीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं संशोधन  
अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा  
21 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996

उपस्थित :-

अधिवक्ता प्रार्थी

विपक्षी संख्या 01

अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2

अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत,

अनुपस्थित।

श्री गिरीश तिवारी,

श्री दिनेश पंचौली,

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने राष्ट्रीय  
राजमार्ग संख्या 758 के किमी. 00.000 किमी. से 30.000 किमी. (राजसमन्द भीलवाड़ा) के  
निर्माण चौड़ा करने/पेड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने बाईपास और चार  
लेन का बनाने आदि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते  
हुए भू-अवाप्ति हेतु दिनांक 06.02.2015 को अधिसूचना का भारत के राजपत्र में  
प्रकाशन किया गया व जिसके तहत अप्रार्थीगण के यहां भू-अवाप्ति की कार्यवाही  
संधारित कर भू-अवाप्ति की कार्यवाही की गई व आपत्तिया आमंत्रित की गई जिसमें  
प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 573, 574, 575 बीड-2, चाही-2, जाव-2,




कृषि भूमि मौजा खण्डेल में से 0.6047 भूमि को अवाप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई व प्रार्थी के नाम से धारा 3(जी) के अंतर्गत अप्रार्थीगण द्वारा 7,10,368/- एवं 28,41,197/- रूपये अवार्ड का निर्धारण करते हुए दिनांक 25.05.2015 एवं 09.11.2015 को आदेश पारित किया गया तत्पश्चात् जिसे प्रार्थी स्वीकार नहीं करता है तथा तथाकथित अवार्ड राशि के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही जो कि मुआवजा निर्धारण के मूलभूत व स्वीकृत सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए अवाप्ति में ग्रसित भूमि के लेण्ड वेल्थ व मुआवजा के निर्धारण बाबत भूमि के संबंध में मुआवजा के सही निर्धारण न किये जाने के कारण हस्तगत अवाप्ति की कार्यवाही के पुनः निर्धारण एवं हक अधिकारों के निरस्ताकरण के लिए अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, एवं उसी दौरान नया भू-अवाप्ति कानून 2013 लागु हो गया उस बाबत भी अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया गया। परन्तु उस पर भी किसी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने एक याचिका बाबत संशोधित मुआवजा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए एवं उनकी उपस्थिति में याचिका यह कहते हुए निस्तारित की गयी कि प्रार्थीगण को संशोधित मुआवजा राशि नवीन अधिनियम 2013 के अनुसार भुगतान किया जावे तथा इसी क्रम में प्रार्थी ने उक्त आदेश की प्रति अप्रार्थीगण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 04.08.2017 एवं 08.09.2017 को जारी किया गया जो राशि रूपये 7,10,368/- एवं 28,41,197/- को होकर प्रार्थी के खाते में भुगतान किया गया लेकिन उक्त संशोधित अवार्ड में अनेक त्रुटियां हैं जैसे कि ब्याज राशि, डीएलसी रेट, मार्केट रेट, समीपवर्ती भूमियां, का मुआवजा प्रार्थी की भूमि से अधिक भुगतान किया गया इन सब तथ्यों का संशोधित अवार्ड पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई तथा विपक्षी संख्या 01 अनुपस्थित।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार Rfctlarr Act. 2013 के तहत किया जाकर चैक संख्या 000026 दिनांक 18.01.2018 द्वारा राशि 28,41,197/- रूपये का निर्धारित डीएलसी दर से भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावे।

विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रारम्भिक आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अधिसूचना जारी करने के उपरांत नियमानुसार आगामी कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.11.2015 को अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित/अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि नियमानुसार सही एवं उचित तथा अंतिम हो चुका था। माननीय उच्च न्यायालय की आदेश की पालना में नियमानुसार संशोधित अवार्ड जारी कर प्रार्थी के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए मुआवजा राशि भुगतान की गई है। प्रार्थी द्वारा यह याचिका सरासर असत्य एवं आधारहीन होने एवं कानूनन पोषणीय नहीं होने



से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 573, 574, 575 बीड-2, चाही-2, जाव-2, कृषि भूमि मौजा खण्डेल में से 0.6047 भूमि को अवाप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई व प्रार्थी के नाम से धारा 3(जी) के अंतर्गत अप्रार्थीगण द्वारा अवार्ड का निर्धारण करते हुए दिनांक 25.05.2015 एवं 09.11.2015 को आदेश पारित किया गया। जिसे प्रार्थी द्वारा स्वीकार नहीं किया तथा तथाकथित अवार्ड राशि के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही जो कि मुआवजा निर्धारण के मूलभूत व स्वीकृत सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए अवाप्ति में ग्रसित भूमि के लेण्ड वेल्यू व मुआवजा के निर्धारण बाबत भूमि के संबंध में मुआवजा के सही निर्धारण न किये जाने के कारण हस्तगत अवाप्ति की कार्यवाही के पुनः निर्धारण एवं हक अधिकारों के निरस्ताकरण के लिए अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, एवं उसी दौरान नया भू-अवाप्ति कानून 2013 लागू हो गया उस बाबत भी अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया गया। परन्तु उस पर भी किसी प्रकार की ठोसी कार्यवाही नहीं की गयी। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने एक याचिका बाबत संशोधित मुआवजा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए एवं उनकी उपस्थिति में याचिका को यह कहते हुए निस्तारित की गयी कि प्रार्थीगण को संशोधित मुआवजा राशि नवीन अधिनियम 2013 के अनुसार भुगतान किया जावे तथा इसी क्रम में प्रार्थी ने उक्त आदेश की प्रति अप्रार्थीगण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 04.08.2017 एवं 08.09.2017 को जारी किया गया जो राशि रुपये 7,10,368/- एवं 28,41,197/- को होकर प्रार्थी के खाते में भुगतान किया गया। लेकिन उक्त संशोधित अवार्ड में अनेक त्रुटियां थी जैसे कि ब्याज राशि, डीएलसी रेट, मार्केट रेट, समीपवर्ती भूमियां, का मुआवजा प्रार्थी की भूमि से अधिक भुगतान किया गया इन सब तथ्यों का संशोधित अवार्ड पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण यह प्रार्थना पेश किया है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार Rfctlarr Act. 2013 के तहत राशि का डीएलसी दर से निर्धारण कर भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सब्यय निरस्त फरमावें। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 03 ने निवेदन किया कि प्रार्थी को अधिसूचना जारी करने के उपरांत नियमानुसार आगामी कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.11.2015 को अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित/अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि नियमानुसार सही एवं उचित तथा अंतिम हो चुका था। प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय याचिका पेशकर Rfctlarr Act. 2013 के तहत मुआवजा निर्धारित कराने का आदेश करवाया गया था जिसकी पालना में संशोधित अवार्ड जारी कर प्रार्थी के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए मुआवजा राशि भुगतान की गई है। प्रार्थी द्वारा यह याचिका सरासर असत्य एवं आधारहीन होने एवं कानूनन



पोषणीय नही होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन किया तथा अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 573, 574, 575 बीड-2, चाही-2, जाव-2, कृषि भूमि मौजा खण्डेल में से 0.6047 भूमि को अवाप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई व प्रार्थीगण के नाम से धारा 3(जी) के अंतर्गत अप्रार्थीगण द्वारा मूल अवार्ड के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय याचिका संख्या 10779/2017 दिनांक 05.09.2017 की अनुपालना में 7,10,368/- एवं 28,41,197/- रुपये का संशोधित अवार्ड का निर्धारण Rfctlar Act. 2013 के अनुसार करते हुए दिनांक 04.08.2017 एवं 08.09.2017 को आदेश पारित किया गया एवं उसका नियमानुसार ब्याज, डीएलसी रेट तथा सालोशियम का भुगतान किया जा चुका है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी पाया जाना प्रार्थी द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3(जी) 5 आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**::आदेश::**

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3(जी) 5 आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

*Bello*  
(डॉ० भंवर लाल)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Bello*  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमन्द